

महत्वपूर्ण एवं खास

लहलुहान स्थिति में मिले पूर्व सैनिक की मौत, हत्या की आशंका
 कोरबा। रजगामार रोड पर कुरुडीह गांव के पास लहलुहान स्थिति में मिले पूर्व सैनिक को नहीं बचाया जा सका। रायपुर में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। कई आधार पर परिजनों ने घटना को सामान्य मानने से इंकार करते हुए हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार 26 जुलाई की रात 12 बजे पूर्व सैनिक सूरज गुप्ता लहलुहान स्थिति में मिले थे। कोसाबाड़ी निवासी गुप्ता को लेकर कहा जा रहा था कि अज्ञात वाहन ने उन्हें चपेट में लिया है। जबकि मौके पर मिले तथ्यों से लगता है कि नियोजित तरीके से उन पर हमला किया गया। मृतक की बाइक, हेलमेट और बैग का अतापता नहीं है। पूर्व सैनिक शैलेश राठौर और मूलक के भाई हेमंत गुप्ता ने बताया कि डेढ़ साल पहले भी एक पूर्व सैनिक के साथ ऐसा हुआ था। शायद उस घटना को एक बार फिर दोहराया गया है। बताया गया कि सेना से रिटायर होने के बाद गुप्ता पावर ग्रिड बेसमा में काम कर रहे थे। 26 जुलाई को लहलुहान स्थिति में मिलने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद अपोलो भेज दिया गया। स्थिति में सुधार नहीं होने पर रायपुर के एक अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था।

तालाब में तैरती मिली युवकी की लाश

कोरबा। उगा थाना अंतर्गत ग्राम साजापानी में आज सुबह तालाब में एक युवक की लाश तैरती मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जानकारी के अनुसार तालाब में मिली लाश की पहचान साजापानी केनाभाठा निवासी 45 वर्षीय कलेबर प्रसाद अग्रिया के रूप में की गई है। उसके परिजनों की मांगें तो कलेबर प्रसाद रोज की तरह सुबह घर से तालाब की ओर निकला था उन्हें लगा कि वो तालाब के बाद खेत देखने गए होंगे काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह वापस नहीं लाता तो उसकी खोजबीन की गई। इस दौरान पता चला कि तालाब में एक युवक की लाश तैर रही है। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर उसकी शिनाख्त कलेबर के रूप में की। युवक की मौत किस वजह से हुई यह अभी पता नहीं चल सका है। गांव के कोटवार की सूचना पर उगा पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर पंचनामा के बाद शव को बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस मामले में मर्ग कायम कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है।

नेशनल में चयन के लिए

सॉफ्टबॉल टीम गुजरात रवाना हुई
 बीजापुर (आरएनएस)। सॉफ्टबॉल के नेशनल गेम्स के लिए चयन प्रतियोगिता रविवार को आयोजित है। जिसमें शामिल होने बीजापुर से स्पोर्ट्स अकादमी की बालिका टीम शनिवार की शाम को रवाना हुई। गुजरात में 22 सितंबर से सॉफ्टबॉल की नेशनल प्रतियोगिता होने वाली है। हेड कोच सोपान करनेवार ने बताया कि टीम में अरुणा, सुनीता हेमला, कविता हेमला, ज्योति हेमला, रेणुका, इंद्रा, चंद्रकला, शोभा और विमला शामिल हैं। इनमें से तीन खिलाड़ी पूर्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।

नशीली कफ सिरप के साथ युवक पकड़ाया

रायपुर (आरएनएस)। टिकरापारा पुलिस ने नशीली सिरप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 30 नग कफ सिरप और नकदी 6 हजार रूपए जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार टिकरापारा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ नगर में एक युवक नशीली सिरप बेच रहा है। सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अली 43 वर्ष को हिरासत में लेकर तलाशी लिए तो उसके पास कोडिन कफ सिरप 30 नग मिला। वहीं बिक्री रकम नकदी 6 हजार रूपए मिला। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट की धारा 21 बी के तहत कार्रवाई की है।

विधिक शिक्षा के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहा है छत्तीसगढ़ - सीजेआई एन वी रमणा

□ **ज्यूडिशियरी को सर्वोत्तम अधीनस्थान उपलब्ध कराने में अग्रणी बन कर उभरेगा छत्तीसगढ़: सीजेआई एन वी रमणा**
 □ **विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल**
 □ **हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का पांचवा दशक उत्सव**

व्यक्त की कि ये ट्रेड इसी तरह जारी रहेगा और छत्तीसगढ़ ज्यूडिशियरी को सर्वोत्तम अधीनस्थान उपलब्ध कराने में अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन. वी. रमणा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में विधिक शिक्षा के विकास में सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता को गुड गर्वसे प्रदान करने उनके द्वारा किये जा रहे प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं।



हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पांचवें दशक उत्सव समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआई रमणा ने छात्रों से कहा कि आप सभी के पास एक विजन होना चाहिए और उसे पाने के लिए आप सभी के भीतर जोश और जज्बा होना चाहिए। सीजेआई रमणा ने

छात्रों से कहा कि आप सभी इस देश के लिए अनमोल हैं और हम सभी को टेलेन्टेड माइन्ड्स को सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। रायपुर के हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तारीफ करते हुए सीजेआई एन वी रमणा ने कहा कि इसका नाम एक

दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री बघेल ने हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के जर्नल लॉ एंड सोशल साइंस के छठे संस्करण का विमोचन करते हुए गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को उपाधि वितरित की एवं उनके उज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

साथ वर्ष 2021 बैच की पल्लवी मिश्रा ओवरआल टापर रहे। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने की। दीक्षांत समारोह में उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति बी वी नागरला भी मौजूद थीं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस तथा हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति अरुण कुमार गोस्वामी और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा भी उपस्थित थे। दीक्षांत समारोह में छत्तीसगढ़ के विधि मंत्री मोहम्मद अकबर एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री डा गोल्ड मेडल के साथ वर्ष 2020 बैच के अंकित पाल एवं 11 गोल्ड मेडल के

दवा दुकान संचालकों की बैठक, प्रतिबंधित दवाओं को बेचने से होगी सख्त कार्यवाही

कोरबा। पोड़ीबहार सहित दो स्थानों में पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई को मिली सफलता के बाद तेवर सख्त किये गए हैं। कोतवाली क्षेत्र में संचालित हो रही सभी दवा दुकानों के संचालकों की बैठक पुलिस में ली। साफ तौर पर कहा गया कि नियमों के तहत ही कारोबारी अपना काम करें। नियम के विरुद्ध होने वाले काम के मामले में कार्रवाई की जाएगी और कोई राहत भी नहीं मिलेगी। ड्रग्स एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान निर्धारित किये गए हैं उनका शत-प्रतिशत पालन दवा कारोबारियों को करने के लिए इस बैठक में निर्देशित किया गया।



सीएसपी योगेश साहू, थाना प्रभारी राजीव श्रीवास्तव और मातहत समेत दवा कारोबारी बैठक में शामिल हुए। शुरुआती स्तर पर बैठक के परिप्रेक्ष्य की जानकारी दी गई। कहा गया कि जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सामान्य और असामान्य बीमारियों के निवारण एवं रोकथाम के लिए जो दवाएं आवश्यक और प्रभावी हैं, उन्हें रखने के साथ व्यवहार का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। कोशिश हो कि कारोबारियों के इस प्रयास से वास्तविक पीड़ितों को सही और गुणवत्ता वाली दवा प्राप्त हो एवं उनकी पेशानी को कम किया जाए। कोतवाली प्रभारी ने आगे कहा कि

अलग-अलग कारणों से जिन दवाओं को सरकार के औषधी प्रशासन विभाग ने प्रतिबंधित किया हुआ है उन्हें न तो स्टोर करना है और न ही किसी को बेचना है। ऐसा करना भारतीय दंड विधान के सेक्शन के अंतर्गत अपराध है और कोई भी व्यक्ति जो ऐसा करता पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के कारोबारियों से बैठक में संवाद करने के साथ कहा कि उन सभी का व्यवसाय सहा के हित में है इसलिए इस पक्ष को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। किसी भी वजह से गलत अथवा प्रतिबंधित दवा गैर जिम्मेदार हाथों में पहुंचे और इसके खतरनाक प्रभाव हों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।

और उनके विकल्प में प्रतिनिधियों ने उपस्थिति दर्ज की। सभी ने आश्चर्य किया कि जो निर्देश पुलिस अधिकारी की ओर से यहां पर दिए गए हैं उन पर अमल किया जाएगा। कुछ मामलों में प्रिस्क्रिप्शन जरूरी दवा कारोबारियों को पुलिस ने निर्देशित किया है कि अनिद्रा, बचैनी, घबराहट से लेकर कुछ ऐसे मामले जिनमें मरीजों को विशेष स्तर की दवाएं दिए जाने की जरूरत होती है, उनमें बेहतर ढंग से सावधानी बरतने की जरूरत है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले ही गाइडलाइन जारी की गई है। उक्तानुसार उपचार करने वाले चिकित्सक की ओर से सुझाई गई दवा और इस परिप्रेक्ष्य में जारी प्रिस्क्रिप्शन की एक प्रति कारोबारी अपने पास जमा करने पर ही दवा उपलब्ध करेगा। इसी के साथ इसका ब्योरा भी मॉटेन करेगा। अन्य स्थिति में जानकारी होने पर कार्रवाई संभव है।

अवैध रेत उत्खनन के मामले में 7 ट्रैक्टर ज़ब्त

कोरबा। पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह के द्वारा अवैध डीलाल सड़ा कबाड़ कोयला एवं रेत के तस्करो के उपर अंकुश लगाने हेतु चलाये गये मुहिम के अनुपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक वर्मा तथा नगर पुलिस महोदय दर्दी सुश्री लितेश सिंह के मार्ग दर्शन एवं थाना प्रभारी कुसमुण्डा नवीन कुमार देवाना के नेतृत्व में पुलिस सहायता केन्द्र सर्वमंगला के द्वारा दिनांक 30/07/2022 को द्वाारा पेट्रोलिंग के अहिरन नदी के पास ट्रैक्टर क्रमांक 1, सोल्ड 2, सीजी 12 बी एक्स 6550/3 सीजी 12 बीएफ 7057/4- सीजी 12



एक्स, 6134/5- सीजी 12 बीबी-4884 मय ट्रॉली सभी में रेत लोड हालत में पाया गया एवम बरामदपुर् जोड़ा पुल के नीचे ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 12 बीएफ 9923 एवं सीजी 12 एजेड 4873 ट्रॉली में रेत भरा हुआ पाया गया। जिसे धारा 102 जाफ्री. के अंतर्गत जप्त कर अप्रिम कार्यवाही हेतु खनिज विभाग को प्रतिवेदन भेजा जा रहा है।

192 नग प्रतिबंधित कैप्सूल एवम 15 नग नशीली इंजेक्शन जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार

□ **ऑपरेशन निजात अभियान के तहत की जा रही है कार्यवाही**

कोरबा। पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह के निर्देश पर कोरबा जिले में ऑपरेशन निजात अभियान चलाने की तैयारी जोर-शोर से शुरू हो गई है। अभियान के अंतर्गत जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों का मीटिंग लेकर प्रतिबंधित एवं नशीली दवाओं की बिक्री न करने की समझौदा दी गई है एवं बैनर पोस्टर के माध्यम से नशे से होने वाले नुकसान के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अवैध नशे के कारोबार में लगे अपराधियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह से मिले निर्देश के अनुपालन में पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

अभिषेक वर्मा के नेतृत्व एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के पर्यवेक्षण में कोरबा जिले में अवैध नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में रामपुर पुलिस चौकी की पोड़ीबहार निवासी चेतन कश्यप अपने घर में भारी मात्रा में नशीली टेबलेट एवं इंजेक्शन रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना पर चेतन कश्यप के घर पर जाकर दबिश दी गई, जिसके पास से 18 स्ट्रिप में स्यासो प्रॉक्सीडोन नामक टेबलेट कुल 144 नग, 6 स्ट्रिप में पाइडोन स्यास प्लस 48 नग कुल 192 नग टेबलेट एवं पेंटाजॉसिन इंजेक्शन 15 नग बरामद हुआ जिसे विधिवत कार्यवाही कर धारा 22 बी एनडीपीएए एक्ट के अंतर्गत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

एकता और अनुशासन का सबक सीखने में अहम भूमिका निभाता है एनसीसी: डॉ प्रशांत

कोरबा। 28 सीजी बटालियन एनसीसी रायगढ़ के तत्वावधान में बीते दिनों हुए सीएटीसी कैम्प में कमला नेहरू महाविद्यालय की एनसीसी प्रभारी लेफ्टिनेंट अनिता यादव ने भी भागीदारी निभाई और अपने कैडेट्स का उत्साहवर्धन किया। कैम्प सफलतापूर्वक पूरा कर लौटी लेफ्टिनेंट अनिता यादव को कमला नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रशांत बोपापुरकर ने प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉ. बोपापुरकर ने कहा कि एनसीसी जहां युवाओं को एकता और अनुशासन का अनिवार्य सबक सीखने अहम भूमिका निभाता है, वहीं देश के प्रति एक सैनिक की



महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को करीब से जानने व समझने का मौका भी देता है। प्रत्येक विद्यार्थी को एक बार एनसीसी का हिस्सा बन ढेर सारे रोमांचक अनुभवों को जीवन में शामिल करने का मौका प्राप्त करना चाहिए। कमला नेहरू महाविद्यालय के सात एनसीसी छात्र सैनिकों का चयन अगले माह आयोजित होने वाले थलसेना कैम्प के लिए हुआ है। बिलासपुर में 7 सीजी

बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में यह शिविर एक सप्ताह का होगा, जिसमें युवा कैडेट्स को देशरक्षा में दिन-रात जुटे सेना के जांबाज फौजियों की कठिन जिम्मेदारियों को काफी करीब से जानने और समझने का न केवल अवसर मिलेगा, बल्कि उन्हें कैम्प के दौरान स्वयं एक फौजी की भूमिका निभाने के रोमांच की अनुभूति भी प्राप्त होगी। इससे पूर्व सीएटीसी कैम्प का आयोजन 28 छत्तीसगढ़ एनसीसी बटालियन रायगढ़ द्वारा रायगढ़ में आयोजित किया गया था। छह से 15 जुलाई को आयोजित हुए कैम्प में 18 कैडेट्स और 18 से 27 जुलाई को एनसीसी के 28 कैडेट्स समेत कमला नेहरू महाविद्यालय के कूल 36 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। कमला नेहरू महाविद्यालय की एनसीसी प्रभारी लेफ्टिनेंट अनिता यादव ने बताया कि इस कैम्प में सभी स्कूल और कॉलेज के लगभग 720 कैडेट्स ने भागीदारी निभाते हुए भारतीय सेना में शामिल गतिविधियों के बारे में जाना और प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस कैम्प में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के साथ ही अब कमला नेहरू महाविद्यालय के 7 कैडेट्स का चयन टीएस्सी थलसेना कैम्प के लिए हुआ है। महाविद्यालय से चयनित छात्र सैनिकों में सीनियर अंडर ऑफिसर दोशांत कुमार, हर्षीत कौर, नोबल कुमार, अनुराग, अनु कुमारी, श्रुति व आकाशा शामिल हैं।

वजन त्यूहार 2022 की तैयारियों के संबंध में जिला स्तरीय कार्यशाला का हुआ आयोजन

□ एक से 13 अगस्त तक मनाया जायेगा वजन त्यूहार
 □ जिले में 0 से 6 वर्ष के एक लाख 20 हजार 82 बच्चों का लिया जाएगा वजन



कोरबा। बच्चों का वजन लेकर उम्र अनुसार बच्चों में पोषण स्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक से 13 अगस्त तक 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिये वजन त्यूहार का आयोजन किया जाएगा। जिसमें 0 से 6 वर्ष के समस्त बच्चों का वजन व उंचाई लेकर कुपोषण ज्ञात किया जायेगा। इस हेतु जिले स्तर पर कलेक्टर संजीव झा के मागदर्शन में समस्त परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा एम डी नायक ने बताया की इस वर्ष वजन त्यूहार में जिले स्तर से 576 कलस्टर का गठन किया गया है। जिसमें एक अगस्त से 13 अगस्त तक जिले के दो हजार 548 आंगनबाड़ी केन्द्रों में वजन त्यूहार 2022 में इस वर्ष 0 हजार 82 बच्चों का वजन मापन

लेकर उसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा वजन त्यूहार से संबंधित ऐप पर पोर्टल में एंटी करने हेतु कहा गया। इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को वजन त्यूहार से संबंधित दिशा निर्देशों पर विस्तृत चर्चा किया गया। जिसमें वजन त्यूहार के पूर्व तैयारी में सभी समुदाय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसारण दिवाल लेखन मुनादी घर घर जाकर आमंत्रण कार्ड वितरण हितप्राप्तियों को सूचना देना व कलस्टर निर्माण जैसे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कहा गया। जिला स्तरीय प्रशिक्षण के पश्चात मैदानी अमल में भी सेक्टर पर्यवेक्षकों द्वारा समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसी स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि

विद्वानों के द्वारा दिया गया सामाजिक चिंतन शोध पद्धति के रूप में नहीं अपितु सामाजिक समस्याओं एवं प्रमुख घटनाओं के संबंध में निवारण एवं सुझाव प्रस्तुत करने का एक अनुभवतात्मक व प्रयोगात्मक ज्ञान चिंतनधारा है। निरसदेह आज हमें सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय विशिष्ट शोध पद्धति को अपनाया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान की भारतीय शोध पद्धति पर चिंतन करने से यह स्पष्ट है कि प्राचीन समय में ऋषि-मुनियों एवं

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
 Registered with Govt. No. 5526

अधिकार से न्याय तक

इस संघ का गठनसमर्पण स्वतंत्रता में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ही, प्रत्येक कर्मक 5526 है, संघ समर्पण हेतु नं 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं संरक्षक एडवोकेट मो. लक्ष्मण शैलेश्वर (अधिवक्ता, मानव-संरक्षण एवं न्यायिक संघ) के तत्त्वों को लक्ष्य रखा गया है, शैलेश्वर शैलेश्वर, शैलेश्वर शैलेश्वर एवं अन्य ने संघ के गठन के लिए प्रयास किए हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित फिंरम एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक हैं। इस हेतु सदस्यता फॉर्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

प्रार्थना एवं पीड़ित व्यक्ति को समर्थन का सुचना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विभिन्न स्तर एवं विविध स्तर के अनुसार आवश्यक मदद को प्रदान करना।

आवश्यकता
 मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विभिन्न स्तर एवं विविध स्तर के अनुसार आवश्यक मदद को प्रदान करना।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
 मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विभिन्न स्तर एवं विविध स्तर के अनुसार आवश्यक मदद को प्रदान करना।

मुख्य बिन्दु
 प्रार्थना एवं पीड़ित व्यक्ति को समर्थन का सुचना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विभिन्न स्तर एवं विविध स्तर के अनुसार आवश्यक मदद को प्रदान करना।

पीड़ित संपर्क करें
 प्रार्थना एवं पीड़ित व्यक्ति को समर्थन का सुचना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विभिन्न स्तर एवं विविध स्तर के अनुसार आवश्यक मदद को प्रदान करना।

अन्य बिन्दु
 प्रार्थना एवं पीड़ित व्यक्ति को समर्थन का सुचना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विभिन्न स्तर एवं विविध स्तर के अनुसार आवश्यक मदद को प्रदान करना।

पहिए ...
 न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
 Address :
 Behind Stadium
 Near Career
 School, Raigarh,
 C.G.
 Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
 Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU